



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]
No. 576]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2002/आषाढ़ 7, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2002/ASADHA 7, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जून, 2002
सं. 9 (आर ई-2002)/2002—2007

का.आ. 679(अ).—निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैरा 1.1 और 2.4 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या-22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002-2007 की अनुसूची-2 की तालिका-ख की कोड संख्या-0703 (क) में उल्लिखित प्याजों के निर्यात पर लागू शर्तों में एतद्वारा निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया है:-

विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या-42 (आर ई-98)/1997-2002 दिनांक 05-03-1999 और अधिसूचना संख्या-16 (आर ई-2000)/1997-2002 दिनांक 17-05-2000 के अतिक्रमण में प्याजों के निर्यात पर निम्नलिखित शर्त लागू होंगी:-

- (i) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी कोटे के तहत और अधिसूचना अनुसार नेफेड और अन्य राज्य व्यापार उद्यम प्याज का निर्यात करने हेतु अनुमत हैं। नामित राज्य व्यापार उद्यम अपने सहायक पोत लदान-कर्ताओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी कर सकते हैं। राज्य व्यापार उद्यम को इस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने हेतु प्याजों के निर्यात के बीजक मूल्य के 3.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगाने के लिए अनुमत हैं। सहायक पोत लदान-कर्ताओं को कोई ताजा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु इस प्रभार को तुरंत प्रभाव से घटाकर अधिकतम 2 प्रतिशत और 1-4-2003 से अधिकतम 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - (ii) राज्य व्यापार उद्यम उपर्युक्त को छोड़कर शुल्क, गारंटी या जमा राशि या किसी भी अन्य रूप में कोई भी अन्य प्रभार लागू करने हेतु अनुमत नहीं हैं।
 - (iii) निर्यातित सभी प्याजों का मूल्य नेफेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के अधीन होगा।
 - (iv) राज्य व्यापार उद्यम यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई मात्राओं को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई संगत अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात किया जाए।
 - (v) प्याजों के निर्यात हेतु परमिटों की खरीद-फरोख्त समाप्त करने की दृष्टि से निर्यातकों का ध्यान-पूर्वक चयन किया जाता है।
 - (vi) एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि प्याज की गुणवत्ता बनाई रखी जाए।
 - (vii) जारी कि गए परमिटों की साप्ताहिक रिपोर्ट नेफेड को उपलब्ध कराई जाएगी जो प्याजों के बहिर्गमन के बारे में भारत सरकार को सूचित करने हेतु केन्द्रीय (नोडल) एजेंसी के तौर पर काम करेंगी।
 - (viii) विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्याज के वास्तविक पोतलदान की अवधिक रिपोर्टों को उपभोक्ता मामलों के विभाग को सौंपा जाएगा।
2. विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या-50 (आर ई-2001)/1997-2002 दिनांक 22-3-2002, अधिसूचना संख्या-7 (आर ई-2002)/2002-2007 दिनांक 12-4-2002 और अधिसूचना संख्या-8 (आर ई-2002)/2002-2007 दिनांक 19-4-2002 के द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों को दिए कोटे के तहत जारी प्याज की शेष मात्रा के निर्यात पर भी उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी।
 3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/162/430/ए एम 99/पी सी-III]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2002

No. 9 (RE-2002)/2002—2007

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Paragraphs 1.1 and 2.4 of the Export and Import Policy, 2002-2007, the Central Government hereby decides to make following amendments in conditionalities applicable for export of onions mentioned at Code No. 0703 (a) of Table B of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items, 2002-2007:-

In supersession of DGFT's Notifications No.42 (RE-98)/1997-2002 dt. 05.03.1999 and No.16 (RE-2000)/1997-2002 dated 17.5.2000 the following conditions will apply for export of onions:-

- i) NAFED and other State Trading Enterprises are permitted to export onions under quota released and notified by Director General of Foreign Trade from time to time. The designated STEs can also issue NOCs to their Associate shippers. The STEs are presently allowed to levy service charges for issue of NOC etc. @ 3.5% of the invoiced value of export of onions. This charge shall stand reduced to a maximum of 2% for issue of any fresh NOC to Associate shippers with immediate effect and to a maximum of 1% w.e.f. 1.4.2003.
- ii) The STEs are not allowed to levy any other charges except above by way of fees, guarantee or deposits or in any other form whatsoever.
- iii) All onions exported will be subject to a Minimum Export Price (MEP) fixed by NAFED.

- (iv) The STEs shall ensure that the quantities released are exported within the time prescribed in the relevant Notification/Public Notice issued by DGFT from time to time.
 - (v) The careful selection of exporters is made to eliminate the trading in permits to export onions.
 - (vi) The agencies shall ensure that quality of onions is maintained.
 - (vii) A weekly report of permits issued shall be provided to NAFED which shall act as a nodal agency to keep the Government of India informed of the outflow of onions.
 - (viii) Periodic reports of the actual shipment of onion by different agencies be submitted to the Department of Consumer Affairs.
2. The above conditions will also be applicable for export of balance quantity of onions released under quota to specified STEs vide DGFT's Notification No. 50 (RE-2001)/1997-2002 dated 22.3.2002, Public Notice No.7 (RE-2002)/2002-2007 dated 12.4.2002 and Public Notice No.8 (RE-2002)/2002-2007 dated 19.4.2002.
3. This issues in Public interest.

[F. No. 01/92/162/430/A.M. 99/PC. III]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade And Ex-Officio Secy.